





SKPM/SEC.DEPT/2024-25 November 14, 2024

To, BSE Limited Corporate Relationship Deptt. 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

Dear Sir/Ma'am

Scrip Code: 500388

Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulation 2015

Subject: Newspaper Advertisement of Financial Results under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed below, the newspaper clippings of Un-audited Financial Results for the Quarter and half year ended on September 30, 2024, published in:

- 1. Business Standard- English language national daily newspaper.
- 2. Business Standard Hindi Edition.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.

Ritika Priyam Company Secretary & Compliance Officer Mem No: A53502

Encl: As above



REGD. OFFICE : 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002

Ph.: 91-11-46263200, 23261728, 23267253 E-mail: info@skpmil.com

WORKS : SPL-A, 29.558 Acres, 31.69 Acres, 29.982 Acres & SPL-A/1-31232 Sq Mtr.,

SPL-A, Keshwana Rajput, Tehsil Kotputli, RIICO Industrial Area, Jaipur, Rajasthan-303108

Ph.: 7229860222, 7229860333 E-mail: keshwana@skpmil.com

CIN No. : L21012DL1972PLC279773 www.facebook.com/shreekrishnapaper

Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited

Regd. Office: 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road, Darya Gani, New Delhi - 110 002 CIN: L21012DL1972PLC279773

Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2024

			Half year ended	Quarter ended	Year ended			
SI. No.	Particulars	ended 30.09.2024	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024			
		(Un-audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
1	Total Income from Operations	3,995.25	7,620.05	3,748.50	14,543.57			
2	Net Profit/(Loss) for the period	39.53	19.74	167.76	65.36			
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)							
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax	39.53	19.74	166.78	64.38			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)							
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	30.00	6.98	113.06	38.04			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)							
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss)	17.51	2.13	102.68	38.20			
	for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]							
6	Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,352.17	1,352.17	1,352.17	1,352.17			
7	Other equity (Reserves excluding Revaluation Reserve)	•	-	-	1917.62			
	as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				(As at 31.03.2024)			
8	Earnings per equity share (face value of ₹ 10/- each) (not annualised)							
	(a) Basic (in ₹)	0.22	0.05	0.84	0.28			
	(b) Diluted (in ₹)	0.22	0.05	0.84	0.28			
Notes	Notes:							

These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half year ended Sept 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2024 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.skpmil.com

For and on behalf of the Board of Directors of Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited

Place : New Delhi Date: November 13, 2024 Narendra Kumar Pasar Managing Director DIN - 00101426

WOCKHARDT LIMITED

Registered Office: D-4 MIDC, Chikalthana, Chhatrapati Sambhaii Nagar - 431 006 Global Headquarters: Wockhardt Towers, Bandra Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai 400 051 CIN: L24230MH1999PLC120720

Tel: + 91 22 2653 4444

E-mail id: investorrelations@wockhardt.com • Website: www.wockhardt.com



EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

					(Rs	s. in Crore except	t per share data)
Sr. No.	Particulars	3 MONTHS ENDED 30/09/2024	3 MONTHS ENDED 30/06/2024	3 MONTHS ENDED 30/09/2023	6 MONTHS ENDED 30/09/2024	6 MONTHS ENDED 30/09/2023	YEAR ENDED 31/03/2024
_		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income	818	769	777	1,587	1,433	2,881
2.	Loss before exceptional items and tax	(9)	(6)	(35)	(15)	(139)	(406)
3.	Loss after exceptional items and before tax	(9)	(6)	(35)	(15)	(153)	(420)
4.	Loss after tax	(16)	(16)	(73)	(32)	(209)	(472)
5.	Total Comprehensive Income (Comprising of Profit / (Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax)	73	(19)	(93)	53	(230)	(466)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 5/- each)	77	77	72	77	72	77
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserves) as shown in the audited Balance Sheet						3,282
8.	Earnings per share (Face value of Rs. 5/- each) * Not annualised						
	Basic Rs.	(1.47)*	(0.95)*	(5.37)*	(2.42)*	(14.65)*	(32.05)
	Diluted Rs.	(1.47)*	(0.95)*	(5.37)*	(2.42)*	(14.65)*	(32.05)

1. The results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on November 13, 2024. The results have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

. Information on Standalone Financial Results are as follows:

Particulars	3 MONTHS ENDED 30/09/2024	3 MONTHS ENDED 30/06/2024	3 MONTHS ENDED 30/09/2023	6 MONTHS ENDED 30/09/2024	6 MONTHS ENDED 30/09/2023	YEAR ENDED 31/03/2024	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Income	381	379	266	759	523	1,195	
Profit / (Loss) before tax	(36)	6	(107)	(30)	(222)	(422)	
Profit / (Loss) after tax	(36)	6	(107)	(30)	(222)	(422)	

The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulatio 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website

For **WOCKHARDT LIMITED**

Place: Mumbai Date: November 13, 2024 Dr. H. F. Khorakiwala

DIN: 00045608

DIC INDIA LIMITED

CIN: L24223WB1947PLC015202 egistered Office : UB 03, Mani Towe 31/41 Binova Bhave Road, Behala, Kolkata- 700038

Email id: investors@dic.co.in • Website: www.dic.co.in



STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON SEPTEMBER 30, 2024

					(Rs. in lakhs excep	ot per share data
Particulars	Quarter ended September 30, 2024	Preceding quarter ended June 30, 2024	Corresponding quarter ended September 30, 2023	Nine months ended September 30, 2024	Corresponding Nine months ended September 30, 2023	Year ended December 31, 2023
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net)	22,100.97	24,270.13	21,666.95	66,231.25	62,372.55	82,885.14
Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	372.76	836.01	(37.60)	1,652.30	(223.48)	(445.71)
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	372.76	836.01	(1,819.76)	1,657.67	(2,005.64)	(2,824.60)
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	198.44	620.90	(1,383.24)	1,239.05	(1,549.25)	(2,267.62)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	185.62	608.08	(1,427.92)	1,200.59	(1,598.02)	(2,408.73)
Equity Share Capital	917.90	917.90	917.90	917.90	917.90	917.90
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous year)	_	ng:	928	-	-	38,714.55
Earnings per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
1. Basic	2.16	6.76	(15.07)	13.50	(16.88)	(24.70)
2. Diluted	2.16	6.76	(15.07)	13.50	(16.88)	(24.70)

Notes:

Date: November 13, 2024

- The above is an extract of the detailed format of Quartetly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites.
- The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended September 30, 2024 have been duly reviewed by the Audit Committee and were taken on record by the Board of Directors at its meeting held on November 13, 2024. As required in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Agreement and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the same have been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.
- 3 Figures for the previous periods have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform to current period's

By Order of the Board Sd/-

Manish Bhatia Managing Director and CEO



Corporate Identity Number: U65910KL1992PLC006544

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Particulars Total Income Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	30 th September 2024 Unaudited 1,787.05 373.61	30 th September 2023 Unaudited 1,390.21 343.10	March 31, 2024 Audited 5,990.29 1,593.27
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit for the period after Tax	1,787.05 373.61	1,390.21 343.10	5,990.29
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit for the period after Tax	373.61	343.10	,
Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit for the period after Tax			1,593.27
(after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit for the period after Tax	373.61	242.40	
Net Profit for the period after Tax		343.10	1,593.27
arter exceptional and 7 of extraordinary items,	294.61	256.32	1,229.27
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	287.12	256.34	1,222.25
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Each)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Other Equity excluding Revaluation Reserves	8,825.89	7,627.53	8,406.83
Securities Premium Account			
Net Worth	11,325.89	10,127.53	10,906.83
Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	22,854.72	17,118.26	19,583.08
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
Debt Equity Ratio	2.02	1.69	1.80
Earnings per equity share (Face Value of Rs. 10/- Each) (for continuing and discontinued operations)			
Basic (Rs.)* Diluted (Rs.)*	1.18 1.18	1.03 1.03	4.92 4.92
Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
nterest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
*Not annualised			
	Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax). Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Each) Other Equity excluding Revaluation Reserves Securities Premium Account Net Worth Paid up Debt Capital / Outstanding Debt Outstanding Redeemable Preference Shares Oebt Equity Ratio Sarnings per equity share (Face Value of Rs. 10/- Sach) (for continuing and discontinued operations) Basic (Rs.)* Oiluted (Rs.)* Capital Redemption Reserve Oebenture Redemption Reserve Oebet Service Coverage Ratio Interest Service Coverage Ratio	Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Each) Other Equity excluding Revaluation Reserves Recurities Premium Account Net Worth Paid up Debt Capital / Outstanding Debt Outstanding Redeemable Preference Shares Pebt Equity Ratio Carnings per equity share (Face Value of Rs. 10/- Each) Casic (Rs.)* Diluted (Rs.)* Capital Redemption Reserve NA Debet Service Coverage Ratio NA Proof annualised	tatter Exceptional and / or Extraordinary Items) fotal Comprehensive Income for the period Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid up Equity Share Capital (Face Value of 8s. 10/- Each) Other Equity excluding Revaluation Reserves Recurities Premium Account Het Worth 11,325.89 10,127.53 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt Putstanding Redeemable Preference Shares Publit Equity Ratio 2.02 1.69 Earnings per equity share (Face Value of Rs. 10/- Each) Each) (for continuing and discontinued operations) Basic (Rs.)* 1.18 1.03 Diluted (Rs.)* 1.18 1.03 Diluted (Rs.)* 1.18 1.03 Debenture Redemption Reserve NA NA NA NA NA NA NA NA NA N

a) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Securities of the Company are listed and on the website of the Company at www.mvafl.com

b) For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulation, pertinent disclosures have been made to the BSE limited and can be accessed on www.bseindia.com

> For and on behalf of the Board of Directors Manoi Jacob

Place: Kochi Date: 12.11.2024 Whole-time Director DIN: 00019016

Muthoot Vehicle & Asset Finance Limited

Registered Office: Muthoot Chambers, Opp. Saritha Theatre, Banerji Road, Kochi, Ernakulam - 682 018, Kerala, India; Corporate Office: 5th and 6th Floor Midhun Tower, K P Vallon Road, Kadavanthra, Ernakulam - 682020, Kerala, India Tel: +91 75938 64418

Email: cs@mvafl.com, Website: www.mvafl.com



AGARWAL INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED.

Regd: Office : Unit 201-202, Eastern Court, Sion Trombay Road Chembur. Mumbai 400 071. Tel No. 022-25291149/50. Fax: 022-25291147 CIN L99999MH1995PLC084618

AGARWAL INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED RECORDS HIGHEST REVENUE, EBITDA, PAT AND VOLUME IN Q2 FY-2024-25

Q2.F.Y. 2024-25 VS

Q2.F.Y. 2023-24

INCREASE IN REVENUE **FROM OPERATIONS** BASIS)

35.96%

Q2.F.Y. 2023-24

INCREASE IN EBITDA (ON CONSOLIDATED BASIS)

Q2.F.Y. 2024-25 VS

Q2.F.Y. 2023-24

INCREASE IN PROFIT AFTER TAX N CONSOLIDAT BASIS)

Q2.F.Y. 2024-25 VS

INCREASE IN VOLUME GROWTH CONSOLIDAT BASIS)

Q2.F.Y. 2024-25 VS

Q2.F.Y. 2023-24

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

F.Y. ended 31/03/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2023 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2023 82,983.54 180,569.78 213,042.51 Total Income from Operations 23,536.94 17,428.84 32,749.52 103,674.48 23,376.29 Net Profit /(Loss) for the period (before 12,718.58 690.14 2,516.27 846.45 2,017.60 6,408.41 1,816.79 6,693.46 Tax, Exceptional) Net Profit /(Loss) for the period before 690.14 2.516.27 846.45 2.017.60 6,408,41 1.816.79 6.693.46 12.718.58 tax (after Exceptional items) Net Profit /(Loss) for the period after tax 501.49 1,853.72 629.32 1,844.34 5,744.51 1,601.25 4,960.91 10,921.97 (after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the 1,939.53 4,957.48 11,104.78 period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Oth Comprehensive Income (after tax) 1,495.78 1,495.78 1,495.78 1,495.78 1,495.78 1,495.78 1,495.78 1,495.78 6 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) 32,858.63 49,606.23 as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (Other Equity) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -1. Basic(₹) 3.35 12.39 4.21 12.33 38.40 10.71 33.15 73.02 2. Diluted (₹) 3.35 12.39 4.21 12.33 38.40 10.71 33.15 73.02

NOTES The above Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter and Six Months Ended on September 30, 2024 of Agarwal Industrial Corporation Limited ("The Company") drawn in terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations 2015 and various Circulars issued under such Regulations from time to time are reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors today i.e. November 13, 2024. These financial results are available at the Company's and Stock Exchanges' websites.

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendments) Rules, 2016.

The above Consolidated Financial Results for the Quarter & Six Months Ended on September 30, 2024 include the financial results of its Wholly Owned Subsidiary (WOS) Companies- (i) uminex Cochin Private Limited, (ii) AICL Overseas FZ-LLC (iii) Agarwal Translink Private Limited and (iv) AICL Finance Private Limited. The Company, during the Quarter ended on 30th September 2024 under its Ancillary Infra – Bitumen and allied products segment, sold 65,338.77 MTS of Bitumen and allied products as compared to 44,364.27 MTS sold during the corresponding quarter in the previous year, thus registering a growth of 47.27%.

The Company primarily belongs to Ancillary Infra Industry and is engaged in the business of (i) manufacturing and trading of Bitumen and Allied products used heavily in infrastructure projects (ii) providing Logistics for Bulk Bitumen and LPG through its own Specialized Tankers and also (iii) generates power through Wind Mills. These businesses are of seasonal nature due to which revenue gets varied. The Company has its manufacturing units at Taloja, Belgaum, Baroda, Hyderabad, Cochin (through its wholly owned subsidiary – Bituminex Cochin Private Limited), at Rangia, Dist. Kamrup, Assam and at Pachpadra City, Dist. Barmer, (Rajasthan). In addition, the Company has its owned Bulk Bitumen Storage Facilities / Terminals at Baroda, Dighi and Taloja

The Company's Indian Wholly Owned Subsidiary Company - Bituminex Cochin Private Limited is also in the business of manufacturing and trading of Bitumen and Bituminous products whereas its Overseas Wholly Owned Subsidiary Company - AICL Overseas FZ- LLC, RAS AL KHAIMAH, UAE is in the business activity of ship chartering and is in possession of specialized Bulk Bitumen / Bulk Liquid Vessels and is carrying its commercial operations in accordance with the guidelines / notifications with regard to Overseas Direct Investments (ODI) issued by the Reserve Bank of India from time to time. This Company is a proud owner of total 10 Vessels with aggregated carrying capacity of 1,02,049 MTs. of Bulk Bitumen / Bulk Liquid Cargo. Agarwal Translink Private Limited is another Indian Wholly Own Subsidiary of the Company which is engaged in the business of transportation of Bitumen, LSHS and owns large fleet of specialized Bitumen Tankers and also operates a BPCL Petrol Pump in Shahpur, Asangaon, Maharashtra. Further, AICL Finance Private Limited, an NBFC (Non Deposit Taking) WOS of the Company, is yet to commence its business due to some pending regulatory permissions / Licenses.

The Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) has been calculated for the current and previous periods/ years in accordance with IND AS-33

The Company has not discontinued any of its operations during the period under review.

and outsourced storage facilities at Karwar, Haldia and Mangalore.

Previous periods' figures have been regrouped/ rearranged wherever necessary to confirm to the current period's classification 10 The operations /profitability of the Company continue doing better and are expected to do still better in the periods to come

> For Agarwal Industrial Corporation Limited Lalit Agarwa Whole Time Director DIN No. 01335107

Place : Mumba Date: November 13, 2024 **बिजनेस स्टैंडर्ड** नई दिल्ली | गुरुवार, 14 नवंबर 2024

TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED

Regd Off: Sec-B, Pkt-1, Space No-301 & 302 LSC-7, Community Centre, Vasant Kunj Sector B New Delhi - 110070 CIN: L92199DL1997PLC088865 Website: www.touchwood.in Contact No : +91 9810108253

Extract of Statement of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results

	for the Quarter and Half Year Ended 30" September						mount in INR lakh	is, except per equi	ity share data)
		Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Half Year Ended	Year Ended			Half Year Ended	Year Ended
S. No.	Particulars	30 th September 2024	30 th September 2023	30 th September 2024	31 st March 2024	30 th September 2024	30 th September 2023	30 th September 2024	31 st March 2024
1	Total Income from Operation	394.71	377.71	780.98	3,271.73	394.71	379.39	780.98	3,324.67
2	Net Profit before Tax (Before Exceptional Item)	47.80	127.04	92.72	484.75	43.23	115.18	79.92	445.96
3	Net Profit before Tax (After Exceptional Item)	47.80	127.17	92.72	484.88	43.23	115.30	79.92	446.08
4	Net Profit after Tax (After Exceptional Item)	35.80	86.03	69.34	362.18	31.22	74.16	56.53	323.39
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss and Other Comprehensive								
	Income (after tax)	35.80	86.03	69.34	367.73	31.22	74.16	56.53	328.93
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,108.12	1,108.12	1,108.12	1,108.12	1,108.12	1,108.12	1,108.12	1,108.12
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)				2,515.19				2,420.19
8	Earning per Share								
1	Basic	0.32	0.78	0.63	3.32	0.28	0.67	0.51	2.97
\perp	Diluted	0.32	0.81	0.63	3.42	0.28	0.70	0.51	3.06

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI
(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the

For and on Behalf of Board of Directors

websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (www.touchwood.in).

Touchwood Entertainment Limited

Previous periods figures have been regrouped/rearranged/reclassified wherever considered necessary.

Date: 13.11.2024

Maniit Singl (Managing Director) DIN:00996149

Home First Finance Company India Limited CIN: L65990MH2010PLC240703

Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

संदर्भ : प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अधीन तथा प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तिय का प्रयोग करते हुए मांग सूचना यहां नीचे वर्णित इसकी संबंधित तिथियों को जारी की थी, जिसमें आप/निम्नवर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशिसंबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। आप/सभी कर्जदार, तथापि, उक्त बकाया राशि नियत समय के भीतर चुकाने में असफल रहे हैं, अत होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड ने सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के साथ पठित तदधीन नियमों के प्रावधान के तहत उसको प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है

9/1 // // //	। करत हुए यहा नाच वाणत प्र	तिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है :			
सं. सह-	र्वदारों / –कर्जदारों / टरों का नाम	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक कुल बकाया राशि (आईएनआर में)	कब्जा की तिथि
	न सेन, तीजा देवी, ांला देवी	प्लॉट नंबर 42—ए, फिजा विहार योजना, ग्राम-हीरापुरा, लुनियावास, आगरा रोड के पास, जयपुर, राजस्थान 303012, चौहद्दी : उत्तर-प्लॉट नंबर-42, ईस्ट-रोड 30'0, पश्चिम-प्लॉट नंबर-33, दक्षिण-प्लॉट नंबर-41	03-09-24	8,62,867	09-11-24
	न्त वाधवा, ंका प्रियंका,	खसरा नं.448/1 मिन, वाके मौजा उज्जैन, तहसील काशीपुर, जिला उघम सिंह नगर, काशीपुर, उत्तराखंड 244713. चौहद्दी : पूरब : आराजी दीगर व्यक्ति, पश्चिम—आराजी दीगर व्यक्ति, उत्तर—आराजी दीगर व्यक्ति, दक्षिण—सड़क 20 फीट चौड़ी	03-09-24	15,75,662	09-11-24
3. अंवि	Þत यादव —,संगीता,	पलैट नं.बी—3, द्वितीय तल (फ्रंट आरएचएस), खसरा नं. 2989, नीलमणि अपार्टमेंट, मानसरोवर पार्क, ग्राम शाहपुर बन्हेटा, परगना डासना, तहसील एवं जिला. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201002 चौहद्दी: उत्तर-पलैट नंबर बी—7, पूर्व—खाली प्लॉट, पश्चिम—पलैट नंबर बी—2 और बी—1, दक्षिण—रोड 22' चौड़ी	03-09-24	15,61,701	09-11-24
4. अशे	ोक कुमार, रूपा पटवा,	पलैट नंबर जीएफ–02 ग्राउंड फ्लोर (पीछे बाईं ओर), प्लॉट नंबर ए–8/18, डीएलएफ अंकुर विहार, गांव परगना, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102, चौहद्दी : उत्तर–प्लॉट नंबर ए– 8/17, दक्षिण–प्लॉट सं. ए–8/19, पूर्व–रोड 9 मीटर चौड़ा, पश्चिम–प्लॉट सं. ए–10/5	03-09-24	10,89,872	09-11-24
5. প্রস্থা	ोक.—, बबली.,	प्लॉट सं. ८, खसरा सं. 1874, सरिता एन्क्लेव, फेज1, गांव घूम मानिकपुर, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203207, चौडद्दी : उत्तर-सड़क 18' चौड़ी, पूर्व-प्लॉट नं. ७, पश्चिम-प्लॉट नंबर 5, दक्षिण-अन्य का प्लॉट	03-09-24	6,26,734	09-11-24
	मान जांगिड़, रविन्द्र कुमार गेड़, गीता देवी	प्लॉट नंबर-ए–35, शुमम विहार, विजयपुरा रोड, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान 302027 चौहद्दी : उत्तर-प्लॉट नं–34, दक्षिण–प्लॉट नं—38, पूर्व–रोड, पश्चिम– प्लॉट नंए–48	03-09-24	1,73,928	09-11-24
7. दिने	श सुम्मरवाल, गीता	पलैट नं. यूजीएफ बी। ,ऊपरी भूतल (मध्य दायां), श्री बालाजी होम्स, खसरा नं. 774, ग्राम बिसरख जलालपुर परगना और तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301, चौहददी : उत्तर-पलैट नं. यूजीएफ-बी2/जीना, पूर्व-अन्य का प्लॉट, पश्चिम-पलैट नंबर यूजीएफ-बी8, दक्षिण-अन्य का ब्लॉक	03-09-24	8,47,261	09-11-24
	जल देवी, य कुमार सिंह,	प्लॉट नंबर 19, खसरा नं. 1146, मानसा सिटी, गांव-धूम मानिकपुर, परगना एवं तहसील— दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203207, चौहद्दी : उत्तर-प्लॉट नंबर 16, पूर्व-प्लॉट नंबर 18 स, पश्चिम-प्लॉट नंबर 20, दक्षिण-रोड 20 फीट चौड़ी	03-09-24	6,02,808	09-11-24
संज कम लाल	र्गिय चिरंजी लाल (दिवंगत), य कुमार, राहुल बैरवा, लेश चिरंजी, स्वर्गीय चिरंजी त (दिवंगत) के य कानूनी प्रतिनिधि	प्लॉट नंबर— 36 और 37, राजेंद्र नगर विस्तार, ग्राम हीरापुरा खोरी रोपाड़ा, आगरा रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान 302029, चौहद्दी : पूर्व—अन्य, पश्चिम—रोड 25'0,उत्तर—25'0, साउथ—प्लॉट नंबर—35	03-09-24	13,36,201	09-11-24
सिंह	र्गिय सुशीला देवी (मृतक), मुरारी इ, स्वर्गीय सुशीला देवी (मृतक) अन्य कानूनी प्रतिनिधि	प्लॉट नंबर—166, श्री श्याम कुंज सरोवर—एल, ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, दिल्ली हाईवे के पास, जयपुर, राजस्थान 302013, चौहद्दी : पूर्व — प्लॉट नंबर 170, पश्चिम—रोड 30 फीट, उत्तर—प्लॉट नंबर 166, दक्षिण—प्लॉट नंबर 164	03-02-24	11,17,454	09-11-24
	ता देवी—, नवीन ार सिंघल,	पलैट नंबर यूजीएफ-005, फपरी ग्राजंड फ्लोर (सामने का हिस्सा), ब्लॉक-बी, ऑर्गेनिक घर, खसरा नंबर 503/3/, गांव मकनपुर, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201014 चौहद्दी: उत्तर-गोपाल, सत्तू की धूमि, दक्षिण-सिप्तार सिंह की धूमि, पूर्व-मलखान की धूमि, पश्चिम-रास्ता 15 फीट चौड़ा	03-09-24	34,78,161	09-11-24
12. मुकु राजे	ल, धीरज कुमार, श कुमार, उमा देवी	तीसरे तल पर एमआईजी पलैट, छत के अधिकार के साथ (पीछे की तरफ), संपत्ति नंबर आरजेड-84, खसरा नंबर 773/425, कैलाश पुरी, गांव नसीरपुर, कैलाशपुरी, नई दिल्ली-110045 चौहद्दी: उत्तर-दूसरों की संपत्ति, पूर्व-दूसरों की संपत्ति, पश्चिम-15 चौड़ी सड़क, दक्षिण-दूसरों की संपत्ति	03-09-24	18,20,348	09-11-24
13. ਜਿਵਿ	तेन कुमार—, रामवीर,	प्लॉट नंबर 11, खसरा नंबर 82, गगन एन्कलेव-2, गांव- गिरखरपुर सोनारसी, तहसील- दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203207, चौहद्दी : उत्तर-दूसरे का प्लॉट, पूर्व- प्लॉट नंबर 12, पश्चिम- प्लॉट नंबर 10, दक्षिण-21' चौड़ी सड़क	03-09-24	5,81,822	09-11-24
14, राज	ा कमल गुप्ता, पुष्पा देवी,	पलैट नं. यूजीएफ-002, ऊपरी भूतल (फ्रंट साइड भाग), ब्लॉक-बी, ऑर्गेनिक घर, खसरा नं. 503/3, गांव-मकनपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201014. चौडद्दी: उत्तर-प्रस्तावित रोड ए + जी.टी., दक्षिण-प्रदेश/सीढ़ी/सामान्य मार्ग, पूर्व-यूनिट नं.यूजीएफ-3, पश्चिम-यूनिट नं.यूजीएफ-1	03-09-24	34,60,031	09-11-24
15. राज	ा कमल गुप्ता—, पुष्पा देवी,	पलैट नं. यूजीएफ-001, ऊपरी भूतल (फ्रंट साइड भाग) ब्लॉक-बी, ऑगॅनिक घर, खसरा नं. 503/3, गांव मकनपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश201014. चौहद्दी: उत्तर-प्रस्तावित सड़क ए +जी.टी., दक्षिण-प्रदेश/सीढ़ी/सामान्य मार्ग, पूर्व-ईजफ्लैट से नं. यूजीएफ-002, पश्चिम-अन्य संपत्ति	03-09-24	34,60,031	09-11-24
16. राज	ा कुमार, गीता,	प्लॉट नं. 15, आराजी खसरा नं. 23 / /13/2,14,15/1,17/1,17/2,16/1, संजय एन्क्लेव, वाका मौजा गौंची, उप तहसील गौंची, जिला—फरीदाबाद, हरियाणा— 121004, चौहद्दी: उत्तर—सड़क 15' चौड़ी, पूर्व—प्लॉट नंबर 15 का शेष भाग, पश्चिम—प्लॉट नंबर 14, दक्षिण—अन्य की संपत्ति	03-09-24	11,28,296	09-11-24
अनो	श कुमार मीना, Iप देवी	प्लॉट नंबर—1, स्कीम मीना कॉलोनी रेलवे स्टेशन चोमू, जयपुर, राजस्थान 303702, चौहद्दी : पूरब—रोड 30', पश्चिम—रास्ता, उत्तर—प्लॉट नंबर—2, दक्षिण—रोड 20'	03-09-24	9,71,587	09-11-24
	श विश्वास–, । विश्वास,	खसरा नंबर 1528 का मिन, वाके मौजा बड़ीराई, गदरपुर, जिला उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड 263152, चौहद्दी : उत्तर-विक्रेता स्वयं (32 फीट), पूर्व-विक्रेता स्वयं (32 फीट), पश्चिम-सड़क 18 फीट चौड़ी (32 फीट), दक्षिण-सड़क 18 फीट चौड़ी (32 फीट)	03-09-24	14,92,761	09-11-24
19. रामू सुनी	, कंडेरा, ोता	प्लॉट नंबर-24, राजेंद्र नगर-ए, रिथत : हीरापुर, राजेंद्र नगर के पास, गोनेर रोड, जयपुर, राजस्थान 303103, चौहददी : उत्तर —प्लॉट नंबर 25, पूर्व-30'-0' चौड़ी सड़क, पश्चिम-प्लॉट नंबर 9, दक्षिण-प्लॉट नंबर 23	03-09-24	9,77,181	09-11-24
	ा चक्रवर्ती, शी दास	पलैट नंबर ए —08/403, चौथा तल, केएलजे ग्रीन्स, पॅकिट बी, सेक्टर 77, फरीदाबाद, हरियाणा 121101. चौहद्दी : उत्तर—मार्ग, पूर्व—सीढ़ियाँ, पश्चिम—फ़्लैट नं 404, दक्षिण —पैसेज	03-09-24	40,49,852	09-11-24
लिल	म चौहान—, भत कुमार,	खसरा नं 53 मिनट, जागो ग्राम-मठ लक्ष्मीपुर परगना तहसील व जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश 234001, चौहददी : पूर्व-ईएएस रोड 16 फीट चौड़ी, पश्चिम- कालू का मकान, उत्तर-दाताराम का मकान, दक्षिण- डेरी	00-00-24	16,06,943	09-11-24
अस	मान खान—, लम जुवेद,	जी—148/एफ—1, सामने साइड लाइट फ्लैट, प्रथम तल, खसरा नं. का हिस्सा 1076/5/2/887, संपत्ति का हिस्सा जिसका नं. जी—148 है, दिलशाद एक्सटेंशन नं. 1 पर स्थित, अब दिलशाद कॉलोनी, गांव—क्षिलमिल ताहिरपुर, शाहदरा, दिल्ली, नई दिल्ली 110095 चौहद्दी : उत्तर—रोड, पूर्व—प्लॉट नं. जी—147, पश्चिम—प्लॉट नं. जी—145, दक्षिण—रोड 15' चौड़ी	03-03-24	7,00,042	09-11-24
	ो गोस्वामी—, ल कुमारी, अनीता,	फ्लैट नं एफएफ–3, प्रथम तल (दक्षिणी पिछला भाग), प्लॉट नं—17, आदित्य रेजीडेंसी, खसरा नं. 286, गांव विष्णुली, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203207 चौहद्दी : उत्तर—अन्य का प्लॉट, पूर्व —सङ्क 18' चौड़ी, पश्चिम—अन्य प्लॉट, दक्षिण—सङ्क 20' चौड़ी		12,84,659	09-11-24
35553	द अमीर अब्बास रिजवी, गन अब्बास,	पलैट नंबर यूजीएफ 003, ऊपरी ग्राउंड फ्लोर (सामने का हिस्सा), ब्लॉक-बी, ऑर्गेनिक घर एस, खसरा नंबर 503/3, ग्राम मकनपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201014, चौहद्दी : उत्तर-सोसाइटी रोड, दक्षिण-लॉबी/फ्लैट नं, पूर्व-फ्लैट नं यूजीएफ-002, पश्चिम-फ्लैट नं यूजीएफ-004	03-09-24	33,32,366	09-11-24
	नचंद बैरवा, सुगना देवी	प्लॉट नंबर 21, श्याम रेजीडेंसी, वाटिका रोड, ग्राम- सुखदेवपुरा बड़, तहसील- सांगानेर, जयपुर राजस्थान 303905 रो हाउस प्लॉट नं. 124, स्कीम श्री हनुमान नगर में, ग्राम-पुराना बगराना, माली की कोठी,	03-02-24	0.0000000000000000000000000000000000000	07-11-24
26. मुके कर्जदार	श कुमार, इंदु देवी उक्त राशि चूकाने में ः	रा हाउप 'साट न 124, 'स्कान आ हेनुमान नगर न, ग्राम—पुराना बगराना, नाला को काठा, आगरा रोड, जयपुर राजस्थान 303012 असफल रहे हैं, अतः एतदद्वारा कर्जदार/गारंटर और सर्वसाधारण को स	ਹ3-02-24	5,77,133 जाती है कि अध	11-11-24 घोहस्ताक्षरी ने

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतदद्वारा कर्जदार/गारंटर और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उपरिवर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है।

एतदुद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों / गारंटरों तथा सर्वसाधारण को सावधान किया जाता है कि उपरि संदर्भित सम्पत्तियों / प्रतिभृत आस्तियों अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध कोई संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्तियों / प्रतिभृत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड की उक्त सम्पत्तियों / प्रतिभृत आस्तियों के संबंध में यहां ऊपर वर्णित बकाया राशि, जो पूर्ण भुगतान किए जाने तक उस पर आगे ब्याज के साथ देय होगी, के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

थान : एनसीआर. राजस्थान . तेथि : 14—11—2024

होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

18th, 19th, 20th, 22nd & 26th November 2024 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थिगित कर दी गई है और अब 10th, 11th, 12th, 13th, 16th & 18th December 2024 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती एडवोकेट

ए 59ए. पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024 ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com** य 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

विशेष प्रचालन विभाग एचडीएफसी बैंक लि., ग्राजंड फ्लोर, गुलाब भवन, ६, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली— 110002 HDFC BANK

कब्जा सूचना (सांकेतिक) (अचल संपत्ति) प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट Ⅳ के अनुसार चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गंटन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 2002 के जितना आर प्रतिनूति किए प्रियंता) निष्माचला, 2002 के निष्म 3 के तीर्थ में जित्र में 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त पिक्ता के अनुपालन में **एक्डीएफर्सी बैंक ति.** के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधाहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि के 60 दिनों के मीतर भावी ब्याज व उसपर शुक्कों सहित 11.07.2024 तक उसपर 10.07.2024 तक मौजूदा मांग सूचना में वर्णित राशि **रु**. शुरुका सहित 11.07.2024 तक असेपर 10.07.2024 तक माजूदा मांग सूचना न वांगत सीहा र. 1,66,00,434,68 /— (रुपए एक करोड़ छियासठ लाख चार सौ चौतीस व अङ्सठ पैसे केवल) का मृताना करने के लिए ऋणी(यों) मैससे बाबा आयरन स्क्रैप कंपनी (ऋणी) इसके मालिक सुश्री रीता गौयल (मालिक / गिरवीकर्ता(ऑं) / गारंटर(ऑं) को बुलाने के लिए मांग सूचना दिनांक 10 जुलाई, 2024 जारी की थी | ऋणी(यों) / गिरवीकर्ता(ऑं) / गारंटर(ऑं) राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी(यों) / गिरवीकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) और सर्वसाधारण को सूचित किया जात है कि अधोहरताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ प्रतित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **मुजफ्फरनगर, उत्तर** प्रदेश में 12 नवंबर, 2024 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप र ऋणी(यों) / गारंटर(ओं) / गिरवीकर्ता और सर्वसाधारण को एतद्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन र करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन—देन व्यय और शुल्कों आदि के सहित उपरोक्त अनुसार **10.07.2024 तक और 11.07.2024 से** आपके द्वारा देय और विषय के आठल जनवार जुड़ार विकास किया है। विषय जार ना ना निर्मादक स्वास के सिर्प पर्य जार देययोग्य राशि के 1,66,00,444.68 / – (क्पर एक करेड़ छियासट लाख चार सी चौतीस व अङ्सट पैसे केवल) के लिए एचडीएफसी बैंक लि. के प्रमार का विषय होगा।

अचल संपत्ति का विवरण कब्जे की तिथि व समय संपत्ति का विवरण कमर्शियल संपत्ति बियरिंग नं. खसरा नं. 1822, गांव सरजू चुंगी 12.11.2024 Time 11.00 AM and thereafte (इंडस्ट्रिल क्षेत्र के रूप में ज्ञात), मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश . 251001 (क्षेत्र 1 बीघा का 1 / 5 भाग, 13 बिस्बा 12 बिसवंसी — 0,0682 हेक्टेयर या 682 वर्ग मीटर बिक्री डींड नं. 3825 दिनांक 16.09.1989 के अनुसार (क्षेत्र 1 बीघा का 2 / 5 भाग, 13 बिरबा 12 बिसवंशी — 0.1364 हेक्टेयर या 1364 वर्ग मीटर) बिक्री डीड नं. 13105 दिनांक ,28.11.1985 के अनुसार माप कुल 2046 वर्ग मीटर और सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व : आर्यन स्टील, पश्चिम : रोड, उत्तर : सोमनाथ का गोदाम, हरबंस लाल आर्यन स्टोर, दक्षिण : छोटा स्क्रैप ट्रैडर्स का गोदाम

ा प्राप्त कर अपना, रुपक्त लाल आयन स्टार, दक्षिण : छाटा स्क्रेप ट्रेडसे का गोदाम नोट : उक्त सूचना को अधिनियम के नियम ६, ८ व ९ के तहत बिक्री के लिए 30 दिनों की सूचना के रूप में देखा जाए | प्राधिकृत अधिकार स्थान : फरीदाबाद, हरियाणा दिनांक : 12.11.2024 एचडीएफसी बैंक रि

प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि.

श्री मुकेश मदनी, निवासी सी-17, महेंद्र एन्क्लेव, जी.र्ट करनाल रोड, दिल्ली-09, तथा हितेश मदनानी, पुत्र श्री लक्ष्मण दास. निवासी आई-174. प्रथम तल. फेज-1 अशोक विहार, उत्तरी दिल्ली-52 ने "यूनिटेक गोल्फ एंड कंट्री क्लब" (पूर्व में यूनिटेक ग्रांडे के नाम से जाना जाता

सार्वजनिक सूचना

था), सेक्टर 96-97 और 98, नोएडा, उत्तर प्रदेश में " विलो" में प्लॉट 24 C , मेन 2 को बेच दिया है। कोई भी व्यक्ति को, जिसके पास उक्त भुखंड के संबंध में किसी र्भ प्रकार का कोई अधिकार, शीर्षक, हित, दावा,ग्रहणाधिकार या मांग है, उसे इस नोटिस की तिथि से 15 दिनों वे भीतर लिखित रूप में दस्तावेजी प्रमाण के साथ अवगर कराना आवश्यक है। ऐसा न करने पर,दावा/दावों (यदि कोई हो) को छोड़ दिया गया या माफ कर दिया गय माना जाएगा।

दिनांक - १४/११/२०२४ रोहित एस. कुमार 73, सुखदेव विहार, नई दिल्ली-110025 girdharwax@gmail.com HDFC BANK

स्थान - दिल्ली

विशेष प्रचालन विभाग एचडीएफसी बैंक लि., ग्राउंड फ्लोर, गुलाब भवन, ६, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली— 110002 कब्जा सूचना (सांकेतिक) (अचल संपत्ति) प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार

रोहित एस. कुमा

व्रूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन प्रोधिनयम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ ।िटत घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **एचडीएफसी बैंक ति**. के प्राधिकृत धिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि के 60 दिनों के भीतर भार्व ब्याज व उसपर शुल्कों सहित 17.08.2022 तक उसपर 16.08.2022 तक मौजूदा मांग सूचना में वर्णित राशि **रु.** 3,29,15,216.62 (रुपए तीन करोड़ उनतीस लाख पंद्रह हजार दो सौ सोलह व बानत पैसे केवल) का भुगतान करने के लिए ऋणी(याँ) मैसर्स आर.एन. गोयल एंड सन्स प्रा. लि. (ऋणी) इसके निदेशक श्री नरेश गोयल (निदेशक) के माध्यम से और सुश्री माला गोयल मिरवीकर्ता(ऑ) / गारंटर(ऑ) को बुलाने के लिए मांग सूचना दिनांक **16 अगस्त, 2022** जारे की थी। ऋणी(यों) / गिरवीकर्ता(ऑ) / गारंटर(ऑ) राशि का मुगतान करने में असफल रहे रतदृद्वारा ऋणी(यों) / गिरवीकर्ता(ऑ) / गारंटर(ऑ) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) व ांतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **मेरठ, उत्तर प्रदेश** ग अतान उन्हें प्रयत्ति शावताया के अनुभावन ने यहा नीय व गांना समात पर **नरहें, उत्तर प्रदश्न** 1**1 नवंबर, 2024** को कह्मा ले लिया हैं । विशेष रूप से ऋणी(यो) / गिरवीकतों और सर्वसायार को एतदहारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति व nथ किया गुया कोई भी लेन—देन व्यय और शुल्कों आदि के सहित उपरोक्त अनुसार **16.08** 2022 तक और 17 08 2022 से आपके दारा देय और देययोग्य राशि रु. 3 29 15 216 62 (रुपए तीन करोड़ उनतीस लाख पंद्रह हजार दो सौ सोलह व बासठ पैसे केवल) के लिए एचडीएफर्स बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा। अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि व समय					
कमर्शियल संपत्ति बियरिंग नं. ग्राउंड फ्लोर पर दुकान,	11.11.2024					
संपत्ति नं. 197 का भाग,उत्तरी सोती गंज, मेरठ, उत्तर प्रदेश	समयः सुबह 11.00 व उसकबाद					
250011 क्षेत्र 41.27 वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व : 28 फुट 10 इंचू दीव	र इसके बाद् रूचिका अग्रवाल					
की संपत्ति, पश्चिम : 29 फुट 9 इंच की दीवार इसकेबाद विशाल	। अग्रवाल् की संपत्ति, उत्तरः					
15 फ़ुट 4ू इंच की दीवार विकिल दुकान, इसकेबाद कृष्णा की संपत्ति, दक्षिण : 15 फुट शटर						
विकित शिप इसकेबाद रास्ता गली	•					

नोट : उक्त सूचना को अधिनियम के नियम 6, 8 व 9 के तहत बिक्री के लिए 30 दिनों की सूचना के रूप में देखा जाए।

स्थान : फरीदाबाद, हरियाणा दिनांक : 11.11.2024

प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि

श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्टीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 4830/24, प्रहलाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

सीआईएनः L21012DL1972PLC279773

वेबसाइटः www.skpmil.com, ई-मेलः info@skpmil.com फोन नं: 91-11-46263200

(₹लाख में)

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार 31.03.2024 30.09.2024 30.09.2024 30.09.2023 विवरण को समाप्त को समाप्त को समाप्त को समाप्त तिमाई तिमार्ह ग्लेखापरीक्षित) ालेखापरी**क्षित**े लेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) 1 प्रचालनों से कुल आय 3,995.25 7,620.05 3,748.50 14,543.57 अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) 39.53 19.74 167.76 65.36 (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों से पूर्व) 39.53 19.74 166.78 64.38 कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात) कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) 30.00 6.98 113.06 38.04 (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात) अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) 17.51 38.20 2.13 102.68 और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिली इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) 1,352.17 1,352.17 1,352.17 1,352.17 अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के 1917.62 लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में दर्शाए अनुसार (As at 31.03.2024 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रु. 10 / - प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं) (क) मूल (₹ में) 0.22 0.05 0.84 0.28 (ख) तरल (₹ में) 0.22 0.84 0.28

ये परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) के अनुपालन में

ऊपर सेबी (सूचीबृद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गये 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.skpmil.com पर उपलब्ध है।

श्री कष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्टीज लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं उन्हीं की ओर से

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 13 नवंबर, 2024

हस्ताः 🗸 नरेन्द्र कुमार पसारी प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 00101426

EICHER EICHER MOTORS LIMITED

CIN: L34102DL1982PLC129877 Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi - 110017. Telephone: +91 11 41095173 Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122001, Harvana

Telephone: +91 124 4445070 Email: investors@eichermotors.com Website: www.eicher.ir

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(₹ in Crores For the For the quarter ended For the half year ended year ended **Particulars** 30.09.2024 30.06.2024 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2023 31.03.2024 (Unaudited) (Unaudited) Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 4,114.53 Total Revenue from operations 4,263.07 4,393.05 8,656.12 8,100.90 16,535.78 1,266.48 4,754.30 Profit before share of profit / (loss) of 1.248.30 1.205.72 2.514.78 2.317.07 Joint venture and tax Share of profit of Joint venture 113.75 447.72 174.56 101.62 288.31 202.06 (VE Commercial Vehicles Limited) 601.30 261.72 339.58 291.09 584.54 1.201.01 Tax expense Net Profit after tax and share of profit / (loss) 1,101.46 1,100.33 1,016.25 2,201.79 1,934.59 4,001.01 of Joint venture Total Comprehensive income (net of tax) 1.148.77 1.092.12 974.00 2,240.89 1.897.55 3.987.33 Paid-up Equity Share Capital 27.4 27.40 27.38 27.41 27.38 27.38 **Total Reserves** 18,018.15 Earnings Per Share (of ₹ 1 each) on net profit after tax in ₹ (Refer Note 2) 146.18 (a) Basic 40.15 40.21 37.13 80.36 70.70 (b) Diluted 40.06 40.11 37.06 80.17 145.92 Key numbers of Standalone Financial Results: (₹ in Crores)

For the For the quarter ended For the half year ended vear ended **Particulars** 31.03.2024 30.09.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) (Audited) 4.205.44 16,078.16 Total Revenue from operations 4,231.28 3.930.71 8.436.72 7.831.89 Profit before tax 1,267.86 1,433.11 1,237.56 2,700.97 2,446.77 4,970.02 Tax expense 257.98 345.09 299.06 603.07 594.39 1.220.60 Net Profit after tax 1.009.88 1,088.02 938.50 2,097.90 1.852.38 3.749.42 1,820.61 Total Comprehensive Income (net of tax) 1,053.67 1,089.33 900.15 2,143.00 3,738.76

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of consolidated unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly financial results (Consolidated and Standalone) are available on the Company's website - www.eicher.in and also on the website of stock
- exchanges i.e NSE -www.nseindia.com and BSE www.bseindia.com. 2. Earnings per share is not annualised for the quarter ended September 30, 2024, June 30, 2024, September 30, 2023 and half year ended September 30, 2024 and September 30, 2023

For and on behalf of the Board of Directors

Siddhartha Lal **Managing Director**

Date: November 13, 2024